



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2007/फाल्गुन 18, 1928

No. 101]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2007/PHALGUNA 18, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2007

सा.का.नि. 188(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 में, नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“अध्याय 14

चीनी विकास निधि के उधार पर प्रतिभूति ब्याज और अतिरिक्त ब्याज

25. (1) चीनी विकास निधि नियम 16, 17, 21, 22 और 23 के अधीन निधि से दिए गए उधारों के लिए प्रतिभूति, ब्याज और अतिरिक्त ब्याज निम्नानुसार शासित होंगे।

(2) उधार पर बैंक दर से 2% कम साधारण ब्याज रियायती दर पर देय होगा।

(3) उधार की रकम के प्रति संदाय में या उसकी किसी किस्त या उस पर ब्याज के संदाय में किसी व्यतिक्रम (नियमों के अनुसार) की दशा में, चीनी कारखाना

द्वारा व्यतिक्रम की रकम पर ढाई प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

(4) चीनी कारखाना, अपेक्षित करार किए जाने के पश्चात् और नियमों के अधीन उधार के संचितरण से पहले, केन्द्रीय सरकार के समाधान को उधार के लिए प्रतिभूति जमा करेगी।

(5) प्रतिभूति, नियमों में यथा उपबंधित प्रति संदाय की पूरी अवधि के लिए उधार और उस पर ब्याज की रकम और उपर्युक्त उप-नियम (3) में यथा उपबंधित व्यतिक्रम की रकम पर अतिरिक्त ब्याज की रकम समाविष्ट होगी और यह निम्नलिखित किसी रीति में दी जाएगी अर्थात् :-

(i) किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी; या

(ii) चीनी कारखाना की सभी चल और अचल सम्पत्तियों पर समरूप प्रथम चार्ज पर बंधक जिसके न होने पर पूर्ण रूप से द्वितीय चार्ज के आधार पर :

परन्तु नियम 17 और नियम 21 के अधीन गन्ना विकास उधार के मामले में, सहकारी चीनी कारखाना राज्य सरकार की गारंटी के रूप में प्रतिभूति दे सकेगी।

(6) उधार या उसकी किस्त की प्रति संदाय में लगातार दो बार व्यतिक्रम होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त उप-नियम (5) के अधीन उधार के लिए दी गई किसी प्रतिभूति से या केन्द्रीय सरकार के प्रति चीनी कारखाने के किसी दावे से ब्याज सहित समस्त रकम और उस पर अतिरिक्त ब्याज की रकम वसूल करेगी।”

## 3. निम्नलिखित उप-नियम का लोप किया जाएगा :-

- (i) नियम 16 में, उप-नियम (9) खंड (ii-क) और (iii);
- (ii) नियम 17 में, उपनियम (3), खंड (क) में, "इस नियम के अधीन दी गई ऋण की रकम पर बैंक दर से दो प्रतिशत कम के साधारण ब्याज की रियायती दर होगी और" शब्दों और उप-नियम 3(ख);
- (iii) नियम 17क में, उप-नियम (8), (11) और (12);
- (iv) नियम 21 में, उप-नियम (11) खंड (iii) और उप-नियम (13) में खंड (iii);
- (v) नियम 22 में, उप-नियम (13), उप-नियम (16) और उप-नियम (18) और उप-नियम 18 के अधीन परन्तुक;
- (vi) नियम 23 में, उप-नियम (15), उप-नियम (16) और उप-नियम (18) और उप-नियम 18 के अधीन परन्तुक।

[फा. सं. 1-10/2006-एस.डी.एफ.]

सुनील पोरवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 752(अ) तारीख 28-9-1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :-

1. सा.का.नि. 817(अ), तारीख 20-12-1984;
2. सा.का.नि. 838(अ), तारीख 14-11-1985;
3. सा.का.नि. 551(अ), तारीख 6-5-1988;
4. सा.का.नि. 235(अ), तारीख 24-4-1991;
5. सा.का.नि. 441(अ), तारीख 28-4-1992;
6. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6-5-1994;
7. सा.का.नि. 27(अ), तारीख 12-1-1996;
8. सा.का.नि. 656(अ), तारीख 21-11-1997;
9. सा.का.नि. 91(अ), तारीख 12-2-2001;
10. सा.का.नि. 886(अ), तारीख 6-12-2001;
11. सा.का.नि. 443(अ), तारीख 21-6-2002;
12. सा.का.नि. 584(अ), तारीख 19-8-2002;
13. सा.का.नि. 67(अ), तारीख 29-1-2003;
14. सा.का.नि. 241(अ), तारीख 25-3-2003;
15. सा.का.नि. 787(अ), तारीख 6-10-2003;
16. सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19-11-2003;
17. सा.का.नि. 953(अ), तारीख 17-12-2003;
18. सा.का.नि. 72(अ), तारीख 23-1-2004;
19. सा.का.नि. 687(अ), तारीख 21-10-2004;

20. सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9-11-2004;

21. सा.का.नि. 149(अ), तारीख 2-3-2005;

22. सा.का.नि. 451(अ), तारीख 4-7-2005;

23. सा.का.नि. 558(अ), तारीख 15-9-2006।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2007

**G.S.R. 188(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules 1983, after rule 24, the following chapter shall be inserted, namely:—

### "Chapter XIV

#### Security, interest and additional interest on Sugar Development Fund loans

25. (1) The security, interest and additional interest for the loans given under Sugar Development Fund Rules 16, 17, 21, 22, and 23 from the Fund shall be governed as follows.
- (2) The loans shall carry a concessional rate of simple interest of 2% below the Bank Rate.
- (3) In case of any default in repayment of the amount of loan or payment of any instalment thereof or interest thereon (in accordance with the Rules), an additional interest at the rate of two and half per cent per annum on the amount of default shall be payable by the sugar factory.
- (4) The sugar factory shall, after the execution of the agreement required to be entered into and before the disbursement of the loan under Rules, furnish security for the loan to the satisfaction of the Central Government.
- (5) The security shall cover the amount of loan and interest thereon for the full period of repayment as provided in the Rules and further additional interest on the amount of default as provided in sub-rule (3) above, and shall be furnished in any of the following manners namely:—
  - (i) Bank Guarantee from a Scheduled Bank; or

- (ii) A mortgage on all immovable and movable properties of the sugar factory on *pari passu* first charge basis failing which on the basis of an exclusive second charge :

Provided that in case of sugarcane development loan under Rules 17 and 21, a cooperative sugar factory can furnish the security in the form of State Government Guarantee.

- (6) In case of two consecutive defaults in repayment of the loan or instalment thereof, the Central Government shall realise the entire amount of loan alongwith the interest and the additional interest thereon from any of the security provided for the loan under sub-rule (5) above or any claim of the sugar factory against the Central Government."

3. The following sub-rules shall be deleted :—

- (i) In Rule 16, sub-rule (9), clause (ii-A) ; and clause (iii)
- (ii) In Rule 17, sub-rule (3), clause (a), the words from "The amount of loan" to "two per cent below the bank rate and"; and sub-rule 3(b).
- (iii) In Rule 17 A, sub-rules (8) (11) and (12);
- (iv) In Rule 21, in sub-rule (11) clause (iii) and in sub-rule (13) clause (iii);
- (v) In Rule 22, sub-rules (13), (16) and (18) and proviso under sub-rule 18;
- (vi) In Rule 23, sub-rules (15), (16) and (18) and proviso under sub-rule 18.

[F.No. 1-10/2006-SDF]

SUNIL PORWAL, Jt. Secy.

**Footnote :** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 28.9.1983 *vide* No. G.S.R. 752(E) and were previously amended by the following notifications :—

- (i) GSR 817(E) dated 20-12-1984;
- (ii) GSR 838(E) dated 14-11-1985;
- (iii) GSR 551(E) dated 6-5-1986;
- (iv) GSR 235(E) dated 24-4-1991;
- (v) GSR 441(E) dated 28-4-1992;
- (vi) GSR 435(E) dated 6-5-1994;
- (vii) GSR 27(E) dated 12-1-1996;
- (viii) GSR 656(E) dated 21-11-1997;
- (ix) GSR 91(E) dated 12-2-2001;
- (x) GSR 886(E) dated 6-12-2001;
- (xi) GSR 443(E) dated 21-6-2002;
- (xii) GSR 584(E) dated 19-8-2002;
- (xiii) GSR 67(E) dated 29-1-2003;
- (xiv) GSR 241(E) dated 25-3-2003;
- (xv) GSR 787(E) dated 6-10-2003;
- (xvi) GSR 895(E) dated 19-11-2003;
- (xvii) GSR 953(E) dated 17-12-2003;
- (xviii) GSR 72(E) dated 23-1-2004;
- (xix) GSR 687(E) dated 21-10-2004;
- (xx) GSR 739(E) dated 9-11-2004;
- (xxi) GSR 149(E) dated 2-3-2005;
- (xxii) GSR 451(E) dated 4-7-2005;
- (xxiii) GSR 558(E) dated 15-9-2006.